

# Neh

## Chapter 10

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וְצִדְקִיָּהּ: וְצִדְקִיָּהּ  
और-सिदकिय्याह  
H6667

הַכֹּלֵהָ  
हकल्याह-का  
H2446

בֶּן-  
पुत्र  
H6660

הַרְגָּשָׁתָא  
राज्यपाल  
H8660

נְהֻמְיָה  
नहेम्याह  
H5166

הַחֲתוּמָיִם  
जिन्होंने-मुहर-लगाई-थी  
H2856

וְעַל  
और  
1

मुहर लगी वाचा पर निम्न लिखित नाम लिखे थे: हकल्याह का पुत्र राज्यपाल नहेमायाह। सिदकिय्याह,

יִרְמְיָהּ:  
यिरम्याह  
H3414

עֲזַרְיָה  
अजर्याह  
H5838

סָרָא  
सरायाह  
H8304

2

सरायाह, अजर्याह, यिरम्याह,

מִלְכִיָּהּ:  
मल्किय्याह  
H4441

אַמְרִיָּה  
अमर्याह  
H0568

פִּשְׁחָהּ  
पशहूर  
H6583

3

पशहूर, अमर्याह, मल्किय्याह,

מַלְלֹךְ:  
मल्लूख  
H7645

שִׁבְנְיָה  
शबन्याह  
H7645

חֲטוּשׁ  
हटूश  
H2407

4

हत्तूश, शबन्याह, मल्लूख,

עֹבְדָהּ:  
ओबद्याह  
H5662

מְרֵמוֹת  
मेरेमोत  
H4822

חָרִים  
हारीम  
H2766

5

हारीम, मेरेमोत, ओबद्याह,

בָּרוּךְ:  
बारूख  
H1263

גִּינְתָוִן  
गिन्नतोन  
H1599

דָּנִיֵּיֶל  
दानियेल  
H1840

6

दानियेल, गिन्नतोन, बारूख,

מִיָּמִין:  
मिय्यामीन  
H4326

אַבִּיָּה  
अबिय्याह  
H0029

מִשׁוּלָּאָם  
मशुल्लाम  
H4918

7

मशुल्लाम, अबिय्याह, मिय्यामीन,

וְ-  
याजक  
H3548

אֵלֶּה  
ये-थे  
H0428

שָׁמַיָּה  
शमैयाह  
H8098

בִּלְגַי  
बिलगै  
H1084

מַעֲזַיָּה  
माअज्याह  
H4590

8

माज्याह, बिलगै और शमायाह। ये उन याजकों के नाम हैं जिन्होंने मुहर लगी वाचा पर अपने नाम अंकित किये।

קַדְמִיָּאֵל:  
कदमीएल  
H6934

הֵנָדָד-  
हेनादाद-के  
H2582

מִבְּנֵי  
पुत्रों-में-से  
H1131

בְּנֵי  
बिन्नी  
H1131

אֲזַנְיָה  
अजन्याह-का  
H0245

בֶּן-  
पुत्र  
H0245

וְיֵשׁוּעַ  
और-येशूआ  
H3442

וְהַלְוִיִּים  
और-लेवीय  
H3881

9

ये उन लेवीवंशियों के नाम हैं जिन्होंने मुहर लगी वाचा पर अपने नाम अंकित किये: आजन्याह का पुत्र येशू, हेनादाद का वंशज बिन्नी और कदमिएल

10	וַאֲחֵיהֶם	שְׁבִנְיָה	הוֹדִיָּה	קְלִיטָא	פְּלַאיה	חָנָן :
	और-उनके-भाई	शबन्याह	होदियाह	कलीटा	पलायाह	हानान
	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H7645</a>	<a href="#">H1940</a>	<a href="#">H7042</a>		<a href="#">H2605</a>

और उनके भाइयों के नाम ये थे: शबन्याह, होदियाह, कलीता, पलायाह, हानान,

11	מִיכָא	רְהוֹב	חֲשַׁבְיָה :
	मीका	रहोब	हशब्याह
	<a href="#">H4316</a>	<a href="#">H7340</a>	<a href="#">H2811</a>

मीका, रहोब, हशब्याह,

12	זַכָּוָר	שֵׁרֵבְיָה	שְׁבִנְיָה :
	जक्कूर	शेरेब्याह	शबन्याह
	<a href="#">H2139</a>	<a href="#">H8274</a>	<a href="#">H7645</a>

जक्कर, शेरेब्याह, शकन्याह,

13	הוֹדִיָּה	בָּנִי	בְּנֵינּוּ :	ס
	होदियाह	बानी	बनीनू	-
	<a href="#">H1940</a>	<a href="#">H1137</a>	<a href="#">H1148</a>	

होदियाह, बानी और बनीन।

14	רֵאשִׁי	הָעַם	פְּרֻעַשׁ	פְּתַח	מוֹאָב	עִלָּם	זַחְוָא	בְּנֵי :
	प्रधान	लोगों-के	परोश	-	पहत-मोआब	एलाम	जत्तू	बानी
			<a href="#">H6551</a>	<a href="#">H6355</a>	<a href="#">H6355</a>	<a href="#">H2240</a>	<a href="#">H1137</a>	

ये नाम उन मुकियाओं के हैं जिन्होंने उस मुहर लगी वाचा पर अपने नाम अंकित किये: परोश, पहत—मोआब, एलाम, जत्तू बानी,

15	בְּנֵי	עֲזָגָד	בְּבַי :
	बुन्नी	अजगाद	बेबै
	<a href="#">H1138</a>	<a href="#">H5803</a>	<a href="#">H0893</a>

बुन्नी, अजगाद, बेबै,

16	אֲדוֹנִיָּה	בִּגְוֵי	עָדִין :
	अदोनियाह	बिगवै	आदीन
	<a href="#">H0138</a>	<a href="#">H0902</a>	<a href="#">H5720</a>

अदोनियाह, बिगवै, आदीन,

17	אַטָּר	חֲזִיקָה	עֲזָוָר :
	आटेर	हिज्कियाह	अज्जूर
	<a href="#">H0333</a>	<a href="#">H2396</a>	<a href="#">H5809</a>

आतेर, हिजकियाह, अज्जूर,

18	הוֹדִיָּה	חָשׁוּם	בְּסֵי :
	होदियाह	हशूम	बेसै
	<a href="#">H1940</a>	<a href="#">H2828</a>	<a href="#">H1209</a>

होदियाह, हाशूम, बेसै,

19	חָרִיף	עֲנָתוֹת	אֲנָבוּי (
	हारीफ़	अनातोत	नेबै
	<a href="#">H2756</a>	<a href="#">H6068</a>	<a href="#">H5109</a>

हारीफ़, अनातोत, नोबै,

20 מְפִיעַשׁ מְשֻׁלָּם חֲזִיר :  
मगपीआश मशुल्लम हेजीर  
[H4047](#) [H4918](#) [H2387](#)

मगपीआश, मशुल्लम, हेजीर,

21 מְשִׁיבָאֵל צָרוּק יָדוּעַ :  
मशजबेल सादोक यहूआ  
[H4898](#) [H6659](#) [H3037](#)

मेशजबेल, सादोक, यददू,

22 פְּלִטְיָה חָנָן עֲנָיָה :  
पलट्याह हानान अनायाह  
[H6410](#) [H2605](#) [H6043](#)

पलट्याह, हानान, अनायाह,

23 הוֹשֵׁעַ חֲנֻנְיָה חֲשׂוּב :  
होशेआ हनन्याह हशशूब  
[H1954](#) [H2815](#)

होशे, हनन्याह, हशशूब,

24 הַלְלוֹהֶשׁ פִּלְחָא שׁוֹבֵק :  
हल्लोहेश पिलहा शोबेक  
[H3873](#) [H6401](#) [H7733](#)

हल्लोहेश, पिलहा, शोबेक,

25 רַחֻם חֲשַׁבְנָה מַעֲשִׂיָה :  
रहूम हशब्नाह माअसेयाह  
[H2812](#) [H4641](#)

रहूम, हशब्ना, माशेयाह,

26 וְאַחֲיָה חָנָן אֲנָן :  
और-अहिय्याह हानान आनान  
[H0281](#) [H2605](#) [H6052](#)

अहियाह, हानान, आनान.

27 מַלְלוּךְ חָרָם בְּעֵנָה :  
मल्लूख हारीम बानाह  
[H2766](#) [H1196](#)

मल्लूक, हारीम, और बाना।

28 וְשָׂאָר הָעָם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם הַשׁוֹעֲרִים הַמְשָׁרְרִים הַנְּתִינִים וְכָל-  
और-शेष लोग याजक लेवीय द्वारपाल गायक नतीनीम और-सब  
[H7605](#) [H3548](#) [H3881](#) [H7778](#) [H7891](#) [H5411](#) [H3605](#)

בְּנֵיהֶם וְנִשְׂיָהֶם הַנְּבִיאִים הַמְּעֻזִּים הָאֲרָצוֹת אֶל-תּוֹרַת הָאֱלֹהִים וְנִשְׂיָהֶם  
उनके-पुत्र उनकी-पत्नियाँ परमेश्वर-की व्यवस्था की-और देशों-के लोगों-से जिन्होंने-अलग-किया-था-अपने-आपको  
[H0914](#) [H0776](#) [H0413](#) [H8451](#) [H0430](#) [H0802](#)

וּבְנֵיהֶם וְנִשְׂיָהֶם כָּל יוֹדֵעַ מִכֵּין :  
और-उनकी-पुत्रियाँ सब जिसे-ज्ञान-था और-समझ-थी  
[H1323](#) [H3605](#) [H3045](#) [H0995](#)

सो अब ये सभी लोग जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं परमेश्वर के सामने यह विशेष प्रतिज्ञा लेते हैं। यदि ये अपने वचन का पालन न करें तो उन के साथ बुरी बातें घटें! ये सभी लोग परमेश्वर के विधान का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। परमेश्वर का यह विधान हमें परमेश्वर के सेवक मूसा द्वारा दिया गया था। ये सभी लोग सभी आदेशों, सभी नियमों और हमारे यहोवा परमेश्वर के उपदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। बाकी ये लोग भी प्रतिज्ञा लेते हैं: याजक लेवीवंशी, द्वारपाल, गायक, यहोवा के भवन के सेवक, तथा वे सभी लोग जिन्होंने आस—पास रहने वाले लोगों से, परमेश्वर के नियमों का

पालन करने के लिए, अपने आपको अलग कर लिया था. उन लोगों की पत्नियों, पुत्र—पुत्रियाँ और हर वह व्यक्ति जो सुन समझ सकता था, अपने भाई बंधुओं, अपने मुखिया के साथ इस प्रतिज्ञा को अपनाते में सम्मिलित होते हैं कि परमेश्वर के सेवक मूसा के द्वारा दिये गये विधान का वे पालन करेंगे। यदि न करें तो उन पर विपत्तियाँ पड़े। वे सावधानी के साथ अपने स्वामी परमेश्वर के आदेशों, अध्यादेशों और निर्णयों का पालन करेंगे।

29	מַחֲזִיקֵי	עַל-	אֲחֵיהֶם	אֲדִירֵיהֶם	וּבְאֵיִם	בְּאֵלֶּהָ	וּבְשִׁבוּעָהּ	לְלֶכֶת	בְּתוֹרַת
	ये-जुड़े	के-साथ	अपने-भाइयों	अपने-प्रधानों	और-प्रवेश-किया	शपथ-में	और-श्राप-में	चलने-के-लिए	व्यवस्था-में
	<a href="#">H2388</a>		<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0117</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0423</a>	<a href="#">H7621</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H8451</a>
	הָאֱלֹהִים	אֲשֶׁר	נָתַןָּהּ	בְּיַד	מֹשֶׁה	עֶבְדֹ-	הָאֱלֹהִים	וְלִשְׁמֹר	וְלַעֲשׂוֹת
	परमेश्वर-की	जो	दी-गई-थी	हाथ-से	मोशे	दास	परमेश्वर-के	और-पालन-करने	और-करने-के-लिए
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	
	כָּל-	מִצְוֹת	יְהוָה	אֲדִינֵנוּ	וּמִשְׁפָּטָיו	וְחֻקָּיו:			
	सब	आज्ञाएँ	यहीवाह-की	हमारे-प्रभु	और-उसके-नियम	और-उसकी-विधियाँ			
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H2706</a>			

सो अब ये सभी लोग जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं परमेश्वर के सामने यह विशेष प्रतिज्ञा लेते हैं। यदि ये अपने वचन का पालन न करें तो उन के साथ बुरी बातें घटें! ये सभी लोग परमेश्वर के विधान का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। परमेश्वर का यह विधान हमें परमेश्वर के सेवक मूसा द्वारा दिया गया था। ये सभी लोग सभी आदेशों, सभी नियमों और हमारे यहीवा परमेश्वर के उपदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। बाकी ये लोग भी प्रतिज्ञा लेते हैं: याजक लेवीवंशी, द्वारपाल, गायक, यहीवा के भवन के सेवक, तथा वे सभी लोग जिन्होंने आस—पास रहने वाले लोगों से, परमेश्वर के नियमों का पालन करने के लिए, अपने आपको अलग कर लिया था. उन लोगों की पत्नियों, पुत्र—पुत्रियाँ और हर वह व्यक्ति जो सुन समझ सकता था, अपने भाई बंधुओं, अपने मुखिया के साथ इस प्रतिज्ञा को अपनाते में सम्मिलित होते हैं कि परमेश्वर के सेवक मूसा के द्वारा दिये गये विधान का वे पालन करेंगे। यदि न करें तो उन पर विपत्तियाँ पड़े। वे सावधानी के साथ अपने स्वामी परमेश्वर के आदेशों, अध्यादेशों और निर्णयों का पालन करेंगे।

30	וְאֲשֶׁר	לֹא-	נָתַן	בְּנֵהֵנוּ	לְעַמִּי	הָאָרֶץ	וְאֶת-	בְּנֵיהֶם	לֹא	נָקַח
	और	नहीं	हम-देंगे	अपनी-पुत्रियाँ	लोगों-को	देश-के	और	उनकी-पुत्रियों-को	न	हम-लेगे
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3947</a>
	לְבָנֵינוּ:									
	अपने-पुत्रों-के-लिए									

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने आस—पास रहने वाले लोगों के साथ अपनी पुत्रियों का ब्याह नहीं करेंगे और हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि उनकी लड़कियों के साथ अपने लड़कों को नहीं ब्याहेंगे।

31	וְעַמִּי	הָאָרֶץ	הַמְּקֻדָּשׁ	אֶת-	הַמְּבִיאִים	לָאֵץ	שָׂבָר	בְּיָוִם	הַשַּׁבָּת	לְמִזְוֹר
	और-यदि-लोग	देश-के	सामान	-	लाएँ	या-कोई	अनाज	दिन-को	शब्त-के	बेचने-के-लिए
	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4728</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7668</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H4376</a>
	לֹא-	נָקַח	מֵהֶם	בַּשַּׁבָּת	וּבְיָוִם	קֹדֶשׁ	וּנְטָשׁ	אֶת-	הַשָּׁנָה	הַשְּׂבִיעִית
	नहीं	हम-खरीदेंगे	उनसे	शब्त-पर	या-दिन-को	पवित्र	और-हम-छोड़-देंगे	-	वर्ष-की-उपज	सातवें
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H5203</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H7637</a>
	וּמִשָּׂא	כָּל-	יָד:							
	और-लेना	हर	ऋण							
	<a href="#">H4855</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3027</a>							

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सब के दिन काम नहीं करेंगे और यदि हमारे आस—पास रहने वाले लोग सब के दिन बेचने को अनाज या दूसरी वस्तुएँ लायेंगे तो विश्राम के उस विशेष दिन या किसी भी अन्य विशेष के दिन, उन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। हर सातवें बरस हम न तो अपनी धरती को जोतेंगे और न बोएंगे, तथा हर सातवें वर्ष चक्र में हम दूसरे लोगों को दिये गये हर कर्ज को माफ़ कर देंगे।

32	וְהַעֲמַדְנוּ	עָלֵינוּ	מִצְוֹת	לָתֵת	עָלֵינוּ	שְׁלִשִׁית	הַשָּׁקָל	בַּשָּׁנָה	לְעִבְרַת
	और-हमने-ठहराया	अपने-लिए	विधियाँ	देने-के-लिए	अपने-ऊपर-से	तिहाई	शकेल-का	वर्ष-में	सेवा-के-लिए
	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H8255</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H5656</a>		
	בֵּית	אֱלֹהֵינוּ:							
	भवन	हमारे-परमेश्वर-के							
	<a href="#">H0430</a>								

“परमेश्वर के भवन का ध्यान रखने के लिये उसके आदेशों पर चलने के उत्तरदायित्व को हम ग्रहण करेंगे। हम हर साल एक तिहाई शकेल हमारे परमेश्वर के सम्मान में भवन की सेवा, उपासना को बढ़ावा देने के लिये दिया करेंगे।

לְמוֹעָדִים और-नियत-पर्वों H4150	הַחֲדָשִׁים नए-चाँदों H2320	הַשַּׁבָּתוֹת शब्वतों-के H7676	הַתְּמִיד — H8548	וְלַעֲוֹלָת — H8548	וּמִנְחָת — H4503	הַמַּעֲרֹכֶת — H4635	לֶלֶחֶם — H3899	33
בֵּית- भवन-का H4399	מְלָאכֶת कार्य H3605	וְכֹל और-सब H3605	יִשְׂרָאֵל इसाएल H3478	עַל- के-लिए H3478	לְכַפֵּר प्रायश्चित-करने-के-लिए H3478	וְלַחֲטָאוֹת और-पाप-बलियों H6944	וְלִקְדָּשִׁים और-पवित्र-वस्तुओं H6944	
						ס - H0430	אֱלֹהֵינוּ: हमारे-परमेश्वर-के H0430	

इस धन से उस विशेष रोटी का खर्च चला करेगा जिसे याजक मन्दिर की वेदी पर अर्पित करता है। इस धन से ही अन्नबलि और होमबलि का खर्च उठाया जायेगा। सब नये चाँद के त्यौहार तथा दूसरी सभाओं पर इसी धन से खर्चा होगा। उन पवित्र चढ़ावों और पापबलियों पर खर्च भी इस धन से ही किया जायेगा जिनसे इस्राएल के लोग शुद्ध बनते हैं। इस धन से ही हर उस काम का खर्च चलेगा जो हमारे परमेश्वर के मन्दिर के लिए आवश्यक है।

לְבֵית भवन-में H0935	לְהָבִיא लाने-के-लिए H0935	וְהָעָם और-लोगों-में H3881	הַלְוִיִּם लेवीयों H3881	הַכֹּהֲנִים याजकों-में H3548	הָעֲצִים लकड़ी-के H6086	קָרְבָן चढ़ावे H5307	עַל- के-लिए H5307	הַפְּלִגְנוּ हमने-डालीं H5307	וְהַגְּדִילוֹת और-विडियाँ H1486	34
עַל- पर H8141	לְבַעַר जलाने-के-लिए H8141	בְּשָׁנָה दर-वर्ष H8141	שָׁנָה वर्ष H8141	מִזְמָנִים नियुक्त H2163	לְעֵתִים समयों-पर H6256	אֲבֹתֵינוּ हमारे-पूर्वजों-के H0001	לְבֵית- घरानों-के-अनुसार H0001	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-के H0430		
				בְּתוֹרָה: व्यवस्था-में H8451	כְּכָתוּב जैसा-लिखा-है H3789	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-की H0430	יְהוָה यहोवाह-के H3068	מִזְבֵּחַ वेदी H4196		

“हम यानी याजक, लेवीवंशी तथा लोगों ने मिल कर यह निश्चित करने के लिए पासे फेंके कि हमारे प्रत्येक परिवार को हर वर्ष एक निश्चित समय हमारे परमेश्वर के मन्दिर में लकड़ी का उपहार कब लाना है। वह लकड़ी जिसे हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाया जाता है। हमें इस काम को अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह हमारी व्यवस्था के विधान में लिखा है।

שָׁנָה वर्ष H8141	עֵץ पेड़ों-के H6086	כָּל- सब H3605	פְּרִי फल H6529	כָּל- सब H3605	וּבְבוֹרֵי और-पहिले-फल H1061	אֲדָמָתָנוּ हमारी-भूमि-के H0127	בְּבוֹרֵי पहिले-फल H1061	אֶת- — H0853	וְלָהָבִיא और-लाने-के-लिए H0935	35
								יְהוָה: यहोवाह-के H3068	לְבֵית भवन-में H8141	בְּשָׁנָה दर-वर्ष H8141

“हम अपने फलों के हर पेड़ और अपनी फसल के पहले फलों को लाने का उत्तरदीयत्व भी ग्रहण करते हैं। हर वर्ष यहोवा के मन्दिर में हम उस फल को लाकर अर्पित किया करेंगे।

בְּקָרְבָנוּ हमारे-झुण्डों-के H1241	בְּבוֹרֵי पहिलौठे H1060	וְאֶת- और H0853	בְּתוֹרָה व्यवस्था-में H8451	כְּכָתוּב जैसा-लिखा-है H3789	וּבְהִמָּוָתֵינוּ और-हमारे-पशुओं-के H0929	בְּבָנֵינוּ हमारे-पुत्रों-के H0929	בְּכָרוֹת पहिलौठे H1060	וְאֶת- और H0853	36
אֱלֹהֵינוּ: हमारे-परमेश्वर-के H0430	בְּבֵית भवन-में H8334	הַמְשָׁרְתִים जो-सेवा-करते-हैं H8334	לְכֹהֲנִים याजकों-को H3548	אֱלֹהֵינוּ हमारे-परमेश्वर-के H0430	לְבֵית भवन-में H0430	לְהָבִיא लाने-के-लिए H0935	וּצְאֵנֵינוּ और-हमारी-भेड़ों-के H6629		

“क्योंकि व्यवस्था के विधान में यह भी लिखा है इसलिए हम इसे भी किया करेंगे: हम अपने पहलौठे पुत्र, पहलौठे गाय के बच्चे, भेड़ों और बकरियों के पहले छौनो को लेकर परमेश्वर के मन्दिर में आया करेंगे। उन याजकों के पास हम इन सब को ले जाया करेंगे जो वहाँ मन्दिर में सेवा आराधना करते हैं।

וַיִּצְהָר	תִּירֹשׁ	עֵץ	כָּל-	וּפְרִי	וּתְרוּמָתֵינוּ	עָרִיסְתֵינוּ	רֵאשִׁית	וְאֶת-	37
और-तेल	नई-दाखरस	पेड़ों-का	सब-प्रकार-के	और-फल	और-हमारी-भेंट	हमारे-आटे-के	पहिले-फल	और	
<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H8492</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6529</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H6182</a>	<a href="#">H7225</a>	<a href="#">H0853</a>	

לְלוּיִם	אֲדָמָתָנוּ	וּמַעֲשֵׂר	אֲלֹהֵינוּ	בֵּית-	לְשָׂכוֹת	אֶל-	לְכַהֲנִים	נָבִיא	
लेवीयों-को	हमारी-भूमि-का	और-दशवाँश	हमारे-परमेश्वर-के	भवन-की	कोठरियों	की-ओर	याजकों-को	लाने-के-लिए	
<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H0127</a>	<a href="#">H4643</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H3957</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0935</a>	

עֲבַדְתֵּנוּ:	עָרֵי	בְּכֹל	הַמְּעֻשָׂיִם	הַלְוִיִּם	וְהֵם
हमारी-खेती-के	नगरों-में	सब	दशवाँश-लेते-थे	लेवीय	क्योंकि-वे
<a href="#">H5656</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6237</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H1992</a>

“हम परमेश्वर के मन्दिर के भण्डार में याजकों के पास ये वस्तुएँ भी लाया करेंगे: पहला पिसा खाना, पहली अन्न— बलियाँ, हमारे सभी पेड़ों के पहले फल, हमारी नयी दाखमधु और तेल का पहला भाग। हम लेवीवंशियों के लिये अपनी उपज का दसवाँ हिस्सा भी दिया करेंगे क्योंकि प्रत्येक नगर में जहाँ हम काम करते हैं। लेवी वंशी हमसे ये वस्तुएँ लिया करते हैं।

מַעֲשֵׂר	אֶת-	יַעֲלוּ	וְהַלְוִיִּם	הַלְוִיִּם	בְּעֵשֶׂר	הַלְוִיִּם	עִם-	אֶהְרֹן	בֶּן-	הַכֹּהֵן	וְהָיָה	38
दशवाँश	-	लेकर-जाएँगे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<a href="#">H4643</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H6237</a>	<a href="#">H3881</a>		<a href="#">H0175</a>		<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H1961</a>	

הָאוֹצָר:	לְבֵית	הַלְשָׂכוֹת	אֶל-	אֲלֹהֵינוּ	לְבֵית	הַמְּעֻשֵׁר
भण्डार-घर-के	के	कमरों	की-ओर	हमारे-परमेश्वर-के	भवन-में	दशवाँश-का
<a href="#">H0214</a>		<a href="#">H3957</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H4643</a>

लेवीवंशी जब उपज का यह भाग एकत्र करें तो हारुन के परिवार का एक याजक उनके साथ अवश्य होना चाहिये, और फिर इन सब वस्तुओं के दसवें हिस्से को वहाँ से लेकर लेवीवंशियों को चाहिये कि वे उन्हें हमारे परमेश्वर के मन्दिर में ले आयें और उन्हें मन्दिर के खजाने की कोठियों में रख दे।

הַדָּגָן	תְּרוּמָת	אֶת-	הַלְוִי	וּבְנֵי	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי-	יָבִיאוּ	הַלְשָׂכוֹת	אֶל-	כִּי	39
अनाज-का	भेंट	-	लेवी-के	और-पुत्र	इसाएल-के	पुत्र	लाएँगे	कोठरियों	की-ओर	क्योंकि	
<a href="#">H1715</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3878</a>		<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3957</a>	<a href="#">H0413</a>		

וְהַשְּׂעָרִים	הַמְּשָׁרְתִים	וְהַכֹּהֲנִים	הַמִּקְדָּשׁ	כָּלֵי	וְשָׁם	וְהַיִּצְהָר	הַתִּירֹשׁ
और-द्वारपाल	जो-सेवा-करते-हैं	और-याजक	पवित्र-स्थान-की-हैं	वस्तुएँ	और-जहाँ	और-तेल-का	नई-दाखरस-का
<a href="#">H7778</a>	<a href="#">H8334</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H4720</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H8492</a>

אֲלֹהֵינוּ:	בֵּית	אֶת-	נֶעֱזֹב	וְלֹא	וְהַמְּשָׁרְתִים
हमारे-परमेश्वर-का	भवन	-	हम-छोड़ेंगे	और-नहीं	और-गायक-हैं
<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7891</a>

इसाएल के लोगों और लेवीवंशियों को चाहिये कि वे अपने उपहारों को कोठियों में ले आयें। उपहार के अन्न, नयी दाखमधु और तेल को उन्हें वहाँ ले आना चाहिये। मन्दिर में काम आने वाली सभी वस्तुएँ उन कोठियों में रखी जाती हैं और अपने कार्य पर नियुक्त याजक, गायक और द्वारपालों के कमरे भी वही थे। “हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं करते हैं कि हम अपने परमेश्वर के मन्दिर की देख—रेख किया करेंगे!”